

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

JBML/SE/Q2/24-25

August 14, 2024

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G
Bandra Kurla Complex,S
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001

Scrip Code: **JAYBARMARU**

Scrip Code: **520066**

Sub: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Pre AGM Newspapers Publication

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith copies of pre AGM newspapers advertisement published in Business Standard (Hindi & English) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder read with all applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA), from time to time, intimating regarding the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on **Thursday, September 12, 2024**, through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) and to provide other requisite information to the shareholders.

The aforesaid Newspapers advertisement is also available on the website of the Company www.jbmgroup.com

Thanking you,
For **Jay Bharat Maruti Limited**

Shubha Singh
Company Secretary
M. No.- A16735

Encl.: As stated above

Works :

Plant 1: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T: +91 124 4887200, F: +91 124 4887300
Plant II : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332
Plant III : Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952
Plant IV : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332
Regd. Office : 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100
CIN: L29130DL1987PLC027342 **Email Id:** jbml.investor@jbmgroup.com

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The Authorized Officer of EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED ("EARC") (CIN:U67100MH2007PLC174759), under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("said Rules") issued a demand notice dated 18.12.2021 calling upon the borrower(s), the guarantor(s) and the mortgagor(s) PRADEEP KUMAR SHARMA AND POONAM SHARMA against LAN No. HHLVAS00352332 to repay the amount mentioned in the said notice being a sum of Rs. 21,82,666.25 (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Two Thousand Six Hundred Sixty Six and Paise Twenty Five Only) as on 29.11.2021 in respect of the said Facility with further interest thereon and penal interest from 30.11.2021 till payment /realisation, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

And whereas subsequently, Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited as Trustee of EARC Trust - SC 439 has vide Assignment Agreement dated 02.11.2023 assigned all its rights, title, interest and benefits in respect of the debts due and payable by the borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) arising out of the facilities advanced by IHFL (now known as SAMMAAN CAPITAL LTD) to borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) alongwith the underlying securities to Asset Reconstruction Company (India) Limited acting in its capacity as Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust ("Arcil") for the benefit of the holders of Security Receipts. Therefore, in view of the said assignment, Arcil now stands substituted in the place of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited and Arcil shall be entitled to institute/continue all and any proceedings against the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) and to enforce the rights and benefits under the financial documents including the enforcement of security interest executed and created by the borrower/ guarantor(s)/mortgagor(s) for the said facilities advanced by them.

The borrower/guarantors/mortgagor(s) having failed to repay the said amounts to Arcil, notice is hereby given to the borrower/guarantors/mortgagor(s) in particular and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Arcil has taken Symbolic Possession of the secured assets described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on 09.08.2024.

The borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below mentioned secured assets and any dealings with the secured assets will be subject to the charge of Arcil for a sum of Rs.30,33,197.58 (Rupees Thirty Lakhs Thirty Three Thousand One Hundred Ninety Seven and Paise Fifty Eight Only) as on 27.06.2024 in respect of the said Facility with further interest at contractual rate from 28.06.2024 till payment /realisation together with all incidental costs, charges and expenses incurred.

The borrowers/guarantors/mortgagors' attention is invited to the provisions of the Sub-Section (8) of Section 13 of the said Act, in respect of time available to redeem the below mentioned secured assets.

DESCRIPTION OF SECURED ASSETS

Property owned by: PRADEEP KUMAR SHARMA FLAT NO.STC-402 HAVING SUPERAREA OF 799 SQ. FT., 4TH FLOOR, TOWER-VC, AJNARA PANORAMA, PLOT NO. GH-04, SECTOR-22A, YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH - 201303.

Sd/- Authorised Officer Date : 09.08.2024 Asset Reconstruction Company (India) Limited Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR (Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust)

ZONAL SASTRRA-JAIPUR PLOT NO. 2, NEHRU PLACE, NEAR LAL KO THI SABI MANDI, JAIPUR RAJASTHAN PIN 302015

In terms of RBI Master Circular No. DBR, No. CID.BC.22/20, 16.003/15-16 dated July 01, 2015, a meeting of the Committee for Review of Willful Defaulters of the Bank was held on 15.04.2024. The Review Committee concluded that events of willful default in the M/s Satiwki Proteins Pvt. Ltd. account(s) had occurred and declared borrower and its following directors/guarantors as willful defaulters. 1. Shri Virendra Kumar Agarwal (Director/ Guarantor) 2. Shri Vikas Agarwal (Director/ Guarantor) 3. Shri Narottam Lal Agarwal (Director/ Guarantor) 4. Smt. Sunita Devi Agarwal (Director/ Guarantor) 5. Smt. Puspaa Agarwal (Guarantor) 6. Smt. Rakhi Agarwal (Guarantor) 7. Smt. Santosh Devi (Guarantor) Accordingly, the Review Committee had issued order dated 30.04.2024. The said orders were sent through registered post at the address available with the Bank. However, the said orders returned undelivered. Hence, all directors/guarantors of M/s Satiwki Proteins Pvt. Ltd. hereby informed to collect Review Committee order dated 30.04.2024 from Zonal Sastra Centre Jaipur, Punjab National Bank situated at Plot No. 2, Nehru Place, Near Lal Kohli Sabji Mandi, Jaipur Rajasthan Pin 302015. Zonal SASTRRA Jaipur

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, Asset Recovery Branch, Jaipur at 101-110, First Floor, Anukampa Tower, Church Road, Jaipur-302001 (Raj) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 10.01.2024 calling upon the borrower 1 (a) Mr. Nirmal Doraya S/o Shri Virendra Kumar Doraya/ Kumawat (Applicant), 1(b) Mrs. Sarita Devi Kumawat W/o Mr. Virendra Kumar Kumawat (Co-ApPLICANT), 1(c) Mr. Hemant Doraya S/o Shri Virendra Kumar Doraya/ Kumawat (Co-ApPLICANT), 1(d) Mrs. Manisha Kumawat W/o Mr. Nirmal Doraya (Co-ApPLICANT), 1(e) Mr. Virendra Kumar Kumawat (Co-ApPLICANT), 1(f) Mrs. Sweta Kumawat W/o Mr. Hemant Doraya (Co-Obligate) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 38,20,802.46 (In words Rupees Thirty Eight Lakhs Twenty Thousand Eight Hundred Two and Paise Forty Six Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 12th day of August Year 2024.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount Rs. 38,20,802.46 (Thirty Eight Lakhs Twenty Thousand Eight Hundred Two and Paise Forty Six Only) with further interest and charges thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY Leasehold Property being the Residential House Plot No.445, Laxmi Colony, Sangar, Jaipur, Rajasthan-302029 in the name of Mr. Virendra Kumar Kumawat and Mrs. Sarita Devi Kumawat measuring 259.51 Sq. Meters and bounded as under: On the North by: House of Tulsi Das, On the South by: House of Madan Doraya, On the East by: House of Khanji, On the West by: Road Sd/- Authorised Officer, Union Bank of India Date: 12.08.2024, Place: Jaipur

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 17.01.2024 calling upon the Borrower(s) SIVAJI K CHATHU AND BEENA C K to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.17,00,246.69 (Rupees Seventeen Lakhs Two Hundred Forty Six And Paise Sixty Nine Only) against Loan Account No. HHLN000240833 as on 11.01.2024 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 09.08.2024.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) for an amount of Rs.17,00,246.69 (Rupees Seventeen Lakhs Two Hundred Forty Six And Paise Sixty Nine Only) as on 11.01.2024 and interest thereon. The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

UNIT No. 0806, HAVING SUPER AREA OF 890 SQ. FT., ON THE 8TH FLOOR, BLOCK-12, IN PROJECT KNOWN AS "ECO VILLAGE-4", SITUATED AT PLOT NO.GH-01, SECTOR-16B, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR-201303, UTTAR PRADESH, WITH ONE COVERED CAR PARKING. Sd/- Authorised Officer Date : 09.08.2024 Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR SAMMAAN CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Registered Office: Block No. A/1003, West Gate, Near Ymca Club, Sur No. 8351/43, S. G. Highway, Makara, Ahmedabad-380051 Gujarat. Corporate Office: 1st Floor, Wakefield House, Spinn Road, Ballard Estate, Mumbai-400038 Email: chetan.rajpurohit@cfm.arc.in Contact: 079-86118554 & 079-8611855 Mobile: 9982816471

APPENDIX-IVA (See proviso to rule 8 (6)) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. CFM Asset Reconstruction Private Limited ("CFM-ARC") (acting in its capacity as Trustee of CFM-ARC - 117) have acquired the entire outstanding debt along with underlying securities of Kamlesh Kumar and Ors. (Borrower & Co-Borrowers) under section 5 of the said Act vide Registered Assignment Agreement dated 02.05.2023 and by virtue of the said Assignment Agreement, Nido Home Finance Limited (Formerly Known as Edelweiss Housing Finance Limited) assigned all the rights, title and interests along with underlying securities and guarantees in favor of CFM-ARC.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable properties (Secured Assets) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of CFM-ARC on 02.07.2024 will be sold on "As is where is basis", "As is what is basis", and "Whatever there is basis", and "No recourse basis" on 18th September 2024 for recovery of Rs. Rs.1,55,44,143.90/- (Rupees One Crore Fifty Five Lakhs Forty Four Thousand One Hundred Forty Three and Ninety Paise Only) & 87,75,435.78 (Rupees Eighty Seven Lakhs Seventy Five Thousand Four Hundred Thirty Five and Seventy Eight Paise Only) due and payable as on 9.03.2023 together with further interest from 10.03.2023 & expenses thereon minus recovery, if any due to the secured creditors from (1) Mr. Kamlesh Kumar (Borrower), (2) Nitu Kumar, (Co-Borrower/ Mortgagor) Winsoft Educare Private Limited, Winsoft Educare Private Limited, Winsoft International Studies Private Limited (Co-Borrowers).

DESCRIPTION OF SECURED PROPERTY: All That Part and Parcel Of The Property Entire Third Floor With Roof Terrace Right Upto Sky, With Common Rights Of Star Case, Main Gate And Passage, With All Other Common Facilities & With The Proportionate Share Of The Land Underneath, Floor / Portion Of Built Up Freehold Property No. A-337, Land Measuring 400.00 Sq Yds, Situated At Layout Plan Of The Janta CHS Ltd. Known As Meera Bagh, Paschim Vihar Delhi 110087 owned by Mrs. Nitu Kmar, Bounded:- North: Plot No 336, South: Plot No 338, West Plot No 320, East: 200 Ft Wide Outer Ring Road. SECURED DEBT: Rs.1,55,44,143.90/- (Rupees One Crore Fifty Five Lakhs Forty Four Thousand One Hundred Forty Three and Ninety Paise Only) & 87,75,435.78 (Rupees Eighty Seven Lakhs Seventy Five Thousand Four Hundred Thirty Five and Seventy Eight Paise Only) due and payable as on 9.03.2023 together with further interest from 10.03.2023. RESERVE PRICE (RP): Rs.3,15,00,000/- (Rupees Three Crore Fifteen Lakhs Only) EMD: Rs.31,50,000/- (Rupees Thirty One Lakhs Fifty Thousand Only) TIME DATE: PLACE: E-Auction/Bidding through website (https://www.bankerauctions.com) Date:- 18.09.2024 - Time: 11:00 AM to 12:00 PM INSPECTION With prior consultation of Authorised Officer LAST DATE AND TIME FOR BID SUBMISSION: On or before 5:00 PM on 17.09.2024 CONTACT: Dr. Chetan Rajpurohit - 9892816471 Email: chetan.rajpurohit@cfm.arc.in

Encumbrances if any: Not known to the secured creditor For detailed terms & conditions of the sale through e auction, please refer to the link provided in Secured Creditors website i.e. https://www.cfm.arc.in before submitting bids for taking part in the e-auction. Bidders may also visit the website https://www.bankerauctions.com or contact service provider M/s. C1 India Private Limited, Bidder Support Nos.: 9124-4302020 / 21 / 22 / +91 7291981124 / 1125 / 1126; email: support@bankerauctions.com, Mr. Bhavik Pandya, Contact No. +91 886682937; maharashtra@c1india.com This notice of 30 days is being given to all of you in compliance of Rule 8, Sub Rule 6 of SARA/ESI Rules Under the SARA/ESI Act 2002, informing all the Borrowers, all the Guarantors and all the Mortgagors about holding of auction/sale of the aforementioned Secured Properties/ Secured Assets at the aforementioned date and time, with the advice to redeem the secured Properties/ Secured Assets. If so desired, by them, by paying the outstanding dues as mentioned herein above along with further interest, other costs and expenses thereon due and payable prior to the scheduled auction. In case of default in payment, any or all of the Secured Properties/Secured Assets shall at the discretion of the Authorized Officer/Secured Creditor be sold through any of the modes as prescribed under Rule 8(5) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Date: 14.08.2024 Place: Delhi Sd/- Authorised Officer CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd. Acting as trustee of CFMARC Trust - 117

JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019. Ph.: 011-26427104; Fax: 011- 26427100 E-mail: jbm.investor@jbmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com



NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS/BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

- 1. The 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, September 12, 2024 at 12:15 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made there under read with all applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs(MCA) from time to time, to transact the businesses as set forth in the Notice of Annual General Meeting. The Company has appointed M/s KFin Technologies Private Limited (KFINTECH) for providing VC/OAVM facility for the AGM. 2. In compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report 2023-24 will be sent through electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent Limited and Depository Participants. The Notice of Annual General Meeting and Annual Report for FY 2023-24 will also be made available on Company's website at www.jbmgroup.com/websites of stock exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively and on the website of KFINTECH at www.kfintech.com 3. Members holding shares in physical form and who have not registered their email address may contact KFINTECH at evoting@kfintech.com for receiving credentials for casting their votes through remote e-voting and attending the Annual General Meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. 4. Manner of registering/updating email addresses: Members holding shares in physical form, who have not yet registered their email address with the Company, are requested to register/update the same by submitting Form ISR-1 along with request letter mentioning their folio no., scanned copy of share certificates (from front and back), self-attested copy of PAN and self-attested copy of any address proof to MCS Share Transfer Agent Ltd., Registrar and share Transfer Agent, of the Company at F-65, 1st Floor, Okhla Phase I, Okhla Industrial Estate, New Delhi, 110020. Members holding shares in dematerialized form, who have not registered their email ID are requested to register/update their email address with their respective Depository participants with whom they maintain their Demat accounts. 5. Members holding shares in demat form are requested to update bank account mandate for receipt of dividend directly in their bank account through Depository participants and with the Company's Registrar and share Transfer Agent by making request along with cancelled Cheque. Where members holding shares in physical form are requested to update their bank details by submitting duly filled Form ISR-1 and ISR-2 to MCS Share Transfer Agent Ltd., Registrar and share Transfer Agent of the Company at F-65, 1st Floor, Okhla Phase I, Okhla Industrial Estate, New Delhi, 110020. 6. Book Closure/Record Date for dividend and payment thereof a) The register of members of the company will remain closed from Friday, September 06, 2024 to Thursday, September 12, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of the member for the final dividend, if declared, for the financial year 2023-24. b) Subject to approval in the AGM, Dividend will be paid to the Members holding shares in electronic form on the basis of details of beneficial ownership furnished by the Depositories, as at the close of Thursday, September 05, 2024 and in respect of Shares held in physical form to those Members whose names will appear in the Register of Members of the Company as on the close of Thursday, September 05, 2024 after giving effect to valid requests received for transmission/transposition of shares on or before Thursday, September 05, 2024.

The e-voting portal will be open for voting from Monday, September 09, 2024 (09.00 a.m.) to Wednesday, September 11, 2024 (05.00 p.m.). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date Thursday, September 05, 2024 will be entitled to cast their vote through remote e-voting & voting at AGM and also be entitled for receipt of final Dividend, if declared.

The 37th Annual General Meeting Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email id in due course. 8. Members are requested to carefully read all the notes as set out in the notice of AGM and in particular, instructions for casting vote through remote e- voting or voting at AGM.

For Jay Bharat Maruti Limited Sd/- Shubha Singh Company Secretary M. No. A16735 Place: Gurugram Date: August 13, 2024

PRATAPGARH BRANCH, NEAR PINGARA TAL, HIGHER SECONDARY SCHOOL ROAD, PRATAPGARH, RAJASTHAN 312605, MOB. NO.9717957302

POSSESSION NOTICE (Section 13(4)) (For Immovable Property) Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, had issued a Demand Notice dated 29.05.2024 calling upon the borrower Jaya Keer & Ram Niwas Keer (BORROWER) to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.19,48,891.45 (Rupees Nineteen Lakhs Forty Eight Thousand Six Hundred Ninety One and Paise Forty Five Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him /her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 13th day of August of the year 2024. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.19,48,891.45 (Rupees Nineteen Lakhs forty Eight Thousand Six Hundred Ninety One and Paise Forty Five Only) + interest and other charges thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel Residential property of West Side of Plot No. E-15, Radhey Krishna Nagar, Rughnathpura, Teh. & Dist. Pratappgarh-312605, Rajasthan. Area: 1090 SQ.FT. Bounded By: East: Remaining Part of Plot No. E-15, West: Plot No. E-14, North: Others Agri Land, South: Colony Road 30 Feet Date: 13.08.2024 Place: Pratappgarh Authorised Officer, Canara Bank

DHANLAXMI COTEX LIMITED CIN: L51100MH1987PLC042280 Regd. Off: 285, 2nd Floor, Jhwar House, Princes Street, Mumbai - 400002 PHONE: 022-4976 4268 | Website : www.dcl.net.in E-mail : dclcotex1987@gmail.com / accounts@dcl.net.in

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 (Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	Quarter ended 30th June 2024	Quarter ended 31st March 2024	Corresponding Quarter ended 30th June 2023	Year ended on 31st March 2024
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations & other revenue	516.10	383.84	691.70	2,871.82
Net Profit / (Loss) (before tax and/or extraordinary items)	159.49	-40.11	152.39	344.24
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Extraordinary items)	159.49	-40.11	152.39	344.24
Net Profit/ (Loss) after tax (after extraordinary items)	133.12	-40.16	126.92	288.54
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	484.22	-112.95	703.14	1524.80
Equity Share Capital	487.14	487.14	487.14	487.14
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	667.94
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	2.73	-0.82	2.61	5.92
Diluted:	2.73	-0.82	2.61	5.92

Note: 1. The Un-audited Financial results for the quarter ended 30th June 2024 were reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th August 2024. The company has adopted Indian Accounting Standards (IND-AS) from 1st April 2017. The above financial results have been prepared following the IND-AS recognition and measurement principles. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable beginning from April, 2017. 3. The prior period's figures have been regrouped or reclassified wherever necessary to conform to current period's classification. For Dhanelaxmi Cotex Limited Sd/- Mahesh Jhwar (Managing Director) DIN: 00002908 Place : Mumbai. Date: 14.08.2024

CHL LIMITED Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025 Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: chl@chl.co.in CIN No: L55101DL1979PLC009498

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th JUNE 2024 (INR in Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2024	30.06.2023	Year Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2024	30.06.2023	Year Ended 31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,168.00	2,104.61	9,336.16	3,282.95	3,289.30	15,401.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	390.71	425.21	2,107.63	-333.39	(117.43)	951.56
5	Total comprehensive income for the period (comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense))	390.71	425.21	2,107.57	(757.25)	(296.71)	622.20
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	-	-	-	-	-	-
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	0.71	0.78	3.84	(1.38)	(0.54)	1.14

** Reserves for standalone as on 31.03.2024, is Rs. 14,304.34 Lacs and for consolidated is Rs. (12,581.08) Lacs NOTES: 1) The above is an extract of the detailed format of quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter ended 30.06.2024 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in). 2) The results for the quarter ended 30.06.2024 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company. 3) The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).

By Order of the Board CHL LIMITED Sd/- (Luv Malhotra) Managing Director DIN 0030477 Place : New Delhi Date : 13th August, 2024

Aadhar Housing Finance Ltd. Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069 Laxmi Nagar Branch : 2nd floor, WA-122, Mother Dairy Road, Near Vishal Medicos, Shakarpur, Opp Balaji Mandir, Delhi-110092



E-AUCTION - SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances Particulars of which are given below:-

S. N.	Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Nature of possession
1	Loan Code No. 187000000004 / Laxmi Nagar Branch, Tunni Devi (Borrower), Abhay Kumar Singh (Co-Borrower)	10-04-2024 & ₹ 9, 11, 810/-	All that part & parcel of property bearing, Plot No. 24 Khasra No 40 Darshan Vihar Village Roopwas Dabri Gautambudh Nagar Uttar Pradesh 203207. Boundaries: East: Plot No-25, West: Road 18 Ft Wide, North: Road 15 Ft Wide, South: Plot No-23	Rs. 7,69,500/-	Rs. 76,950/-	Physical

- 1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and conditions (Tender Documents) is 28-08-2024 within 5:00 PM at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on https://bankerauctions.com. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. 2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 29-08-2024 on https://bankerauctions.com at 3:00 PM to 4:00 PM. 3. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis" and "Whatever Is There Is Basis". 4. The Demand Draft Should be made in favor of 'Aadhar Housing Finance Limited' Only. 5. Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://bankerauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings. 6. The intending bidders should register their names at portal M/s C 1 INDIA PVT LTD through the link https://bankerauctions.com/registration/signup, and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction from the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD through the website https://bankerauctions.com 7. For further details contact Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, Vikas Nain, (Contact No. 9802000309) OR the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No: +91-74182-81709, E-mail: tn@c1india.com & support@bankerauctions.com, Phone No. +917291981124 /25 /26 As on date, there is no order restraining and/or court injunction AHFL/the authorized Officer of AHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties / secured assets. 8. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aadhar Housing Finance Limited (AHFL), secured creditor's website i.e. www.aadharhousing.com. 9. The Bid incremental amount for auction is Rs.10,000/- Place : Uttar Pradesh Date : 14-08-2024 (Authorised Officer) For Aadhar Housing Finance Limited